



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2014/माघ 15, 1935

No. 30]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2014/MAGHA 15, 1935

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2014

सं. 2-प्रेज/2014.—भारत के राष्ट्रपति प्रो. चिन्तामणि नागेश रामचन्द्र राव एवं श्री सचिन रमेश तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार सहर्ष प्रदान करते हैं।

ओमिता पॉल, राष्ट्रपति के सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2014

No. 2-Pres/2014.—The President of India is pleased to confer the award of Bharat Ratna on Prof. Chintamani Nagesa Ramachandra Rao and Shri Sachin Ramesh Tendulkar.

OMITA PAUL, Secy. to the President